

्भ पुरुत (अभीरता) का स्थापीतक, केन्द्रीय बहुत एवं सेवा कर और उत्पाद शरकः। обышны оцимических выданивацей, стротиль цест а техстер.

> रिवितीय तीत्र, की जन्म ही शामन है द^{ान} (प्राप्त कर 17) Historia रेंश कोर्ड दिश केंद्र, AlCage Charres Rang Brade



<u>राजकीर : Railar Jengor</u>

Tele Fan No. 0281 | 340 98252441143 Kmeil: zerappee<u>lsrajhol@igroid.com</u>

<u>1 विभाग्ने शक्त ए, जी, दलसा (-</u>

स्रोति र प्रश्तक र धना ∫ Sppra / 1≠ bo. 370/99/6038/9037

्ट अधिकारी र 5.1.0 No. IN/OI/YOUTH

17,111. 1 Tiale: 06.02.2517

अर्थात आदेश सदस्य (Order to Append Note:

BUV-6ACUS-000-APP-017-2018-19

多数化可 使病 人 Unle of Order.

T

बार्र•रो री मरीम ् 10.04.2018 Date of issues:

101.04.50111

h- each be Shaile. A. Carrier. Commissioner, COST & Control Recine. Kutch/Gandhidhean).

त्र भिरमुक्त परिकार १८०२ (१६८८) ए सुन हो । एका हो । एका हो । एका हो । १८८५ हो सम्बद्धा हो और अधि स्थापिक अधिका स्परिकारकार है। दिनाक क्षा कारण के अनुस्तार में की कि सारामाने । आयुवत, के कि वस्तु को बेक कर को के बीए अभव कुका निष्या निर्माणमा, का मिला अभीतिम्म १२२) की भारत्य निर्देश उनके रहक वरिक्रीयर एक्टर की प्राप्त कर के असानि करने की रहे अपीसी के समार्थ में उन्हें र पहिल्लाकर के उद्देश्य है। ./पंजा म जिलाओं के कर ों विस्तृत्व किया नदा है।

In previouse to Socials Natification No. 25/2017 Olivips School in Frank with Frank's Other No. 95/3017 Of Coned 16.11.2017, Zhai P. W. Massero, Co. considered, OUSS (As Comme) Comes, Knip (Committed Commo Feel) appelled as Applicate Audiously Follows outliers of passing as any intercept and appears to sed ander Section 05 to Central Contest. Act. 19 Fight Seriou 35 of £ v R. ere. Acc. [4] ∈.

π

हार आयुक्त हुन्। आयुक्त का कार्यक भ्रम्भ अन्यक और देव राज्य राज्य विवास, अञ्चल एका शर्म राज्यकार भाषांका, पूर्वत हमझसिता करी सूत्र ¥ेड्डा र शासिल / Ameng and all three meritianed CO coscell by Acceptate/Melatricate/ Maceagaic Commissioner Commissioner / Service Cost, Deploy / Januarya / Department / Maceagaic

सर्गलकरों है, प्रतिवादी का जान एक पैन $\chi(k)$ $\pm e$ à Allinea of Both publicute E Resolution k . M/a Girmer Tuckustriaus, Opp. Itayilbumi Weigh Urtilgy. Raykot Itaari, Dukitpara

մոլոգ**ջովի - 36% 0**0% ्स हैंभाजपेल 🖒 🕩 🎮 कोई कादित जिल्लामिक तहींने में उपस्कत पार्विकास है भागिक साल है गया ्र के अभावताल ५ - ५० ज भागोल क्रम्य कर शहर हैं।

And person appropriate this Goderson-Appeal coay λ also appeal to the appropriate encountry to the longest says:

ਗੰਗਰ ਕੁਮਾਨ (ਬੇਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬਹੁਤ) ਜਾਣ ਬੰਗਰਾਮ ਸਮਾਹਿੰਦ ਹਾਂਬਾਈਐਕ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਚ ਪੱਛੇ ਜਾਂਪਾਲ, ਬੇਹਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਾਹਿਤ ਜਾਂਬਿਰਿਆ (ਜਾਂਸ਼ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਗਰਮ ਸ਼ਾਹਿਤ ਸ਼ਾਹਿਤ ਗਈ ਉਸਦੇ ਜਾਂਬਿਰਿਆ (1994) ਜਾਂਬਿਰਿਆ ਦੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਹਿਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਤ ਜਿਸ ਜਾਂਬਿਰੀਆਂ ਸਿਫਤ ਸੰਗਰਮ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਿੰਗਾ ਦੇ ਇਹ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਹੂ Palerna Tuncor Station ਨੇ ਜਿਹੜਿਆ (1947 – 1947 ਸੇਹਿਰਿਆ Station (1957) ਜਾਂਬਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿੰਗਾ ਦੇ ਸਿੰਗਾ ਦੇ ਸਿੰਗਾ ਸਿੰਗਾ ਦੇ TAT.

ানিক্রে প্রায়ক্ষণ ঠা ক্রেন্সিলে পুথ স্থান্ত নীপ্র গ্রুকে ব্রান্ত ক্রেণ্ডের পুরুষ তর প্রায়ন স্থানিশ স্থানিশ ব্রান্ত ক্রেন্ডের ক্রেন্ডের প্রায়ন স্থানিশ স্থানিশ ক্রেন্ডের করে ক্রেন্ডের ক্রেন্ডের করে ক্রেন্ডের ক্রেন্ডের করে ক্রেন্ডের :50

हारकाह परिचार के का बात का पर्ध में के साथ अपना सब साथ स्थान सी के रहन कर । इसार प्राप्त एक अस्तित नेपालीय सेपाप विकास (किस्ट्र) की किस प्राप्ति (किस प्राप्ति) (किस स्थान के प्राप्ति) के स्थान सी किस क अन्तरायोग स्टेन्सर प्राप्ति किस सीका है Jiil ल्लु-हाबुंट (८८०८३ थर की राज्यों <mark>जाति</mark>

In the twose racels, at behalf of Choules, Pacifie to Service Cha Appellant, I hoursel (CLSTAT) as, sold there is then use of records to be a higher database 380000 of Care of appeals when then as impossible than as impossible to two of the above.

ger many a room ungerear a contribution in the file of the integration of the file of the contribution of the contribution in the contribution of the contribution of

The opposituation will periods (in processes of the Unance for Inc.), to the Appellate for any Shall be tikel in quadragities in them so the neglection provides and the Roll of the solution of the solution of the solution accorded by the color which shall be explained court and alread by averaginated by a facility a facility of the solution of solutions as a shall be accorded by a ready court of the facility of the solution of

िया अभिनियम । १९३ की पार कि भी भारतमानी (१९ व्याक्तर के अपनी को **की गयी अ**मीन, हवाका ाकेक लानी (1964, के निर्माण 9(2) का 9(2)ओं के उद्धार विषयिक प्रथम अंदर करने की खा पार्कण एवं उपके साज भाषामा, किसीब रूपार श्रेपत अध्यम आध्यत (अपीत), केन्द्रीय अभाद शुक्क द्वारा प्रतित अध्या की प्रतित रोजिय नेके प्रति में एक प्रति स्वार्णित होती प्रार्णित और अध्याम श्रिका अस्तिक आध्यत अध्या अध्या अध्या अध्यान कर्माय र नद युक्त केन्द्रिय के क्षितिया मा प्रतिकान की अध्यक्ष रही भवते का विश्व की बाद आह्म प्रार्थित प्रार्थ प्रति शिक्त के जन्म करनी हुनों हुने

Fre appear income when your planting in an income section so the Finance society in a half being the half of St Y as prescribed under Rice 2 (2) & 6/20 of the Section Tax Ruba, 190 of a dual be assembled by a popular code, in Commissioner Comes, as isome commissioner, Contail Expise (Appeals) box of which shall we are iffed upply with apply the interpresent by the information of Assemble Commissioner at the formation of Assemble Tributal.

tiir ों । युक्ता के हिए प्राप्त भूका एवं सेववन अमेरिक प्राप्तिक अधिकार । सेरदेद) असित ल्यांती के यह हो है के होता उत्पाद रेशक क्षणित्य । 1949 को यान अध्यक्ष के प्रतार्थन, तो के किस्तीब आदिस्थान । 1941 के कार 83 के अक्षरिय विकास को भी पार, की गई है, उस आदेश का पति आर्थियोग प्रार्थियम् या आर्थन करने समस्य का स भूतक मेरा कर अंदा है (5) प्रेरिशन (10%), कर मांच एवं सुहत्व, किसप्रेश हैं, वा करते । एक ने कर दर्शीत है ਉੱਤ ਕਿ 🏴 ਵਧ ਮੁਕਸ਼ਾਜ਼ ਨਾਵਸ਼ ਨਾਲ, ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਕ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸ਼ਰਨ ਨੇ ਆ 😘 ਨਾਮ ਸਾਹਿ ਸਮੱਸਿਤ ਹੈ। ਤੋਂ ਸਿੰਤਰ कर १५७ स भिन्न । हा

केन्द्रीय करनाद जुरून एवं संनगर की उत्तरहा जान किए यह <mark>भूतर में जिल्हा ग</mark>्राहेल हैं

- भारताती के केन्द्रन रज्य
- ें नहें राज्य के जा सह प्रस्त होंसे
- ्नार तर विध्यानहीं को देश उन्हें प्रार्थित साम

भागी भाग के इस कर के पानंतन किनोत है। के अधिनिया देश के अधिन से पार्ट की मार्ट के भाषिकार के उनके प्रकारणीय स्थापन अभी एवं अभीन को तानु जरी हाते।

encode of a set । (विषय स्थित अभि को को तो को ताबू की हार्थ । Sur no appeal of a librar echoes of 0.001811, morest Section and of the digital of Regise Av., 0.118 who discuss on an applicable to Section 100 under Section (VI of the Pinance Aut. 100), at appeal around his order shall be pelote the Imboration payment of 2005 of the Galy amendo where there are discussed periods of the John and there is provided the amendo of provided the Automotion of Section (Correct, 1000).

Alex (Merrig Tok) is and Survice Tax. "Diata Demand of All Inches and Inches

 $\{C_1\}$. With items of vertical subsets.

Mark from application to Georgeological ladde:
An in Standard of Georgeological ladde:
An in Standard of Georgeological ladde:
An in Standard of Georgeological ladde:
SUCE do situation, a design one effort that the constant of George design of George design and the constant lateral la

रिक्षिणां के दिया मुख्यान के रण हो है, जुने सुक्यान किया, एक को दिया करफाई है में 10 मूह के 150 मन में होंगन का मिल्ली मेंन्य सारहाती का मिन किही दिया भारत और 5 हुन्दे भारत कर भारतन्त्र में होता, का 15 हो होटन कुले का समयक है कहा का प्राप्तानमा के होतान, मिन्सी सारहाती का सिंही स्टब्स पूर्व में यह देश पुन्त है। संख्या हुए हैं है के समाहित्यों हैं

The edge of 1.32 (coaled goods), where the Boar coals in many triping infectory to a recommendation of the analysis of processing is the coaled to a workflow or in morage victory in a coaled to a workflow or in morage victory in a coaled to a workflow or in morage victory in a coaled to a workflow.

- सारत के लोहर किया सम्हा का भीत है। विशेष कर यह स्वास के विशिष्टींग से अवकार करके ताल पर स्वीति पहें केन्द्रीय उत्तर सुरूत के कुछ (विशेष्ट्र) के असला में, जो सारा का ग्रहर किया सक्य के भीत की निर्मार की नहीं हैं In case of miteraction during to esquee too goods esquered, to good dupung on technoly, by though ending of our case subtrained, will be even and there is a transported with the president of each elegand of an inter-conductive of technique consists, inches
- tiill 1915 aa , د انتها دار المورد المورد
- purjoin trace of an exital and great EA 3 Å, भी भी प्रेमिक्ट के प्रकार अभिन्ति कि कार्य के प्रियम प्रति के कि दिल है हुए महिल का एक्ट के ए उसके के प्राप्त के कि कि कि कि महिल के प्रति के प्रति के कि प्रति के कि प्रति के प्रति क
- P.) ਸੁਸ਼ਰਿਸ਼ਾ (ਸ਼ਾਹਰ ਕੈ) ਸ਼ਾਡ ਗਿੰਦਗੁਰਿੰਦਿਤ ਐਸੰਪਿਤ ਪ੍ਰਸੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਜਦੀ ਅੰਗਰਾਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ੀਆਂ। ਐਮੀ ਹੁਵਾਰੇ ਸਮਝ ਪਾਰ ਅੰਗ ਲਈ ਦਾ ਸ਼ਾਹਬਾ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ 2000 ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਹਰਸ਼ ਹੋਵੇਗੇ ਗਈ ਉਸ ਗਏ, ਲਗਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਰ ਗੋਲ 8-11 ਸੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਜੋ ਲਈ 1000 ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਾ ਗਿੰਦ ਗਏ। The probability content of the supercommitted floring for 2000 ਤੋਂ ਹਰ 2000 ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਕਰ ਸਿੰਦਿਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਹਵਾ ਗਿਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ ਅੰਗਰਾਜ਼ ਸਿਹਾ ਗਏ ਸਿਹਾ ਤੋਂ ਸਿਹਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ਼੍ਰਾਵਕ ਵਿਰਵੇਂ 200
- रहि क्षा । दिश में कई मूल अध्येशि का साम्बेश हैं तो आणि हार महिल का लिए करण का असार। असीर। इस है जिल्ला का असार। असीर। इस है जिल्ला का मिल का महिल है जो की किस का मिल का
- টি মহাস্ত্ৰপূৰ্ণ কৰাবাৰে প্ৰথম ক'শিনিয়ন, 1975, কি কন্ত্ৰী মি কন্ত্ৰিয় কৰা সেইপাৰৰ প্ৰথম সেইবা কি চিন্তু বিশ্বীকৃত ১৬৪ কৰি বৰ ৰক্ষাক্ষক প্ৰকে বিভিন্ন কৰা কৰিব। বিশ্ব বিশ্ব কৰি One copy of application on C. H. se the case may be one understood for an absolute cut critis shall been a cetter on share at Ra. 5.50 as presented under Versides on better at the Court for Act, two, as summed at.
- ्रीमा पुरुष्क, मेक्टीय एक एक १६०४ एक सोएक्स अने,हीय स्थायकीं क्षण्य (जार्च क्रिके) कीचलकरी, १५०४ का दिस्ति। एक सार्च सुकारणा सामाना वर्ष सर्वित्तरेता हारते हाल जिंदको थी भीता से एसना भारतीय कि । असा रेस रे Adentice Final sensited to the rules executing these and of an ed. ...केसारा एक्ट...कोच का देखा Plackoms Through and Sensite Amerika कीचालामाओं (Presenters Miles, 1958)
- Sent आर्थकार पारिकारी को अभीता अधिक करना में शंकारित स्वरूपन, बिस्तुम ओर उन्होंनान पाटवारी का पेरेंग्र अमेरितायी विभागीय वेदासहर करूप chec कुलाए को देस अच्छा है । / You the restriction of a soft and is not provisions relative, to filling at appeal to the higher appealate perfectly, P. Fre appealant normwer to the American substitute oversions, 200, 10

ORDER IN APPEALS

M/s Ginar Industries, Opp. Rejonan Weigh Bridge, Rajkot Rose. Bownson Junagath-392033] eremafter referred to as the appoint that Ded the precent appeal, against Organic-Original NotR/91/2016 tealer. 08.02.2017(Level after referred to as the imaggned order) passing by the Assistant Commissioner, someon that DMsion, Bhavasajarthereinater arrematits as the adjutication at the Lyd of the rown case.

- Ranfly stated the facts of the case are that the appellant files on application for referd of Service Tax amounting to Ex 2,79,0334 Lefties the Adjutibation authority, for the period cuse 2010 to Reptember,2069 under the provision of Nobblestian No. 41/2012-91 deted 29,06,2012, for the service tax paid for export on their not product to Indian Castageo I Extraction Meal. The adjudibating authority vide the impurised exect sanctioned the refune claim of 8s.2 14,1446 and rejecting the ety) (i) an amount of Rs.51,687/ of refund claim of CHA charges and (ii) an amount of Rs. 2,913/4 due to non-stromastion of Bank Reafsactor Certificate in respect of stipping ait no 1111215. The adjudicating authority rejected rathed at Rs. 61 987/4 on the ground that the at the customs cocumentation work had been code by M/s Sizu Duces Shipping Perseas(P) Italy, whereas CENVA! credit has been sealed on laydees issued by M/s Surya shipping Service on which basis refune has been defined by the appellant.
- Roung agenoved to the rejecting of refund claim for Rs 63 9877, or CHA service of the Insugnort (coor, the appellant prototree the present appeal.
- 4. Personal heading in the matter was held on 01,02,2018. Shirt Sown Pate: Assistant Manager Exports appeared for personal heating on behalf of the appellant. He referefed the grounds of aspeal.
- If have carefully gone through the tasts of the case, the inspugned outer, appeal memorandum and the submissions a site by the appealant in written and during the personal bearing. The limited issue to be decided in the personal appeal is whether, the impugned offer confunding the relevation of refurbly date of Rs. (11,00% on C.I.A services is proper or otherwise.)

war: 4 of 6

- Upleanive that, the appellant has contested that the adjudicating authanty has passed the inquigned Ottlerio-Cristel to the ledent of rejecting the refund claim for HaBN-9874 an CHA visitions without apprendable) facts and disconstances of the case. Appellant has contested that the radjudicaling outhority had energify abserving thought. Let $\theta \in \operatorname{Subvigle}'(\mathsf{CD}')$ as mentioned in at the shipping θ it is Nt's Sec. Oncor Shiping Soulder(P) Ltd, while the invelops issued by Mis Suryo Shipping and latter bred in rejecting the delay follows the ingressive to order for Ex. Ed 967/4 on CLIV Services. Appellant also submit that they subminial continuate (IANS) 10.12.2018 (e-c.ec. by MV: Suryo Shipping) Services, decepts the admitted fact the adjustuating adminity for all their SAND ARTICLE States of the appellant to be unsustainable for the reason that the of little customs degrandulation work than beginning by Mys Seat Othern 5tipping Services(F) Etd. whoreas invoices issued by M/s Stryal shipping Service. The appellant also submit that end not for denial reised. by the edjudicating cathodist is not suclaimable in the dyear of less and they are legislately entitled for substantive borreft of information same Legistic Or lessable arradona used for export of goods upper Note. No. 4493842-31.
- The puly ground of appellant to contool in this latter, a beautiful than or flate-4 (144-1-1912,2018 issued by Mts Gerya Chipping Services, 1 have gone through the copy of cadificate. Intelligible 19,12,2006 (x_0) \in $\mathbb{F}[y]$ \mathbb{M}^{3} . Surya Shipping Services (attached as Annaxura & of Angent), whemin this conflict by from first 5 covere eppended by appelled gs. their appearings. kervise provider for relidering various taxable services. Further Mis Sunva-Shipping Services else cartified that Coupung documentation is being on e sy mogratica intrastructure Se vice of Mo See Culonn Allepting Services. (f) Ltd. No any other decumentary evidence placed by the ponctant in: Black defendes. I find that said confinate does not speak that blis Surya. Shipping Scritics solficitization Mis See Queen Shinping Setsions (7) Holl for Cl-A work. It also does not speak whether Sarvice Tax of CHA Sarvice. Law been poid by MIs Sea Oveen Shipping Services (FS Do. 1, is a fac.) fraf rady attlibuized CHA can handled the lot come to short work. Therefore, the adjudicating a fronty after vertication of export documents. has rightly held that outlains documentation work had been done by M 8See Queet, SU(p) on $Vass(\mathbb{P}_p)$ for bull too inverses were respect by M(r)Gurya Shibaing service in respect of CHA pervices which is not juxified by
- 8. In every of threepoing dispussions and findings, I costate Ottor in Original passed by the adjudicating extractly for relating the refund of the inneepect of CHA services and dismiss the appeal file this the passions.



 $\theta_{\rm c}$. The speed files by the appellant states disposed of the 650% to ms.

(P. A. Vasawa) Gammiss char(Abpeata) Comhassioner (XSS) o Central Excise, Kuldr (Gawbidham)

F.Nr. 9.2/78/8/7/2017

9:fb::10.04.5018

By Regd. Post A.D. / Spear Post

To, M& Cincar industries. Opp-Rajdt ani Weigh Bridge, Rajkol Royd, Doletpera, Janagorh 962003.

Chay lor-

- 1. The Chief Commissioner, CGST, Annealabar, Zore, Ahmaraaad,
- The Commissioner, COST, Biravnaga (Kina Attention: RRA) Segton.
- The Additional Commissioner, COST & C.Ex (Systems), Ensymbles.
- 7 The Assistant Commissionor(Refued/Tech), CGST, Bhavaugar.

ريز Guard File.